



Jigna R. Joshi

08 May 1980

12:57 PM

Vapi

Model: Health-Report


Order No: 120082601

तिथि 08/05/1980 समय 12:57:00 वार गुरुवार स्थान Vapi चित्रपक्षीय अयनांश : 23:34:46
अक्षांश 20:21:07 उत्तर रेखांश 72:54:28 पूर्व मध्य रेखांश 82:30:00 पूर्व स्थानिक संस्कार -00:38:22 घंटे

पंचांग	अवकहड़ा चक्र
साम्पातिक काल : 03:23:46 घं	गण : राक्षस
वेलान्तर : 00:03:33 घं	योनि : सिंह
सूर्योदय : 06:05:11 घं	नाडी : मध्य
सूर्यास्त : 19:04:52 घं	वर्ण : वैश्य
चैत्रादि संवत : 2037	वश्य : जलचर
शक संवत : 1902	वर्ग : मार्जार
मास : ज्येष्ठ	रैजा : अन्त्य
पक्ष : कृष्ण	हंसक : भूमि
तिथि : 8	जन्म नामाक्षर : गी-गीता
नक्षत्र : धनिष्ठा	पाया(रा.-न.) : स्वर्ण-ताम्र
योग : ब्रह्म	होरा : शनि
करण : कौलव	चौघड़िया : लाभ

विंशोत्तरी	योगिनी
मंगल 3वर्ष 6मा 8दि शनि	पिंगला 1वर्ष 0मा 2दि भद्रिका
15/11/2017	10/05/2024
15/11/2036	11/05/2029
शनि 18/11/2020	भद्रिका 19/01/2025
बुध 29/07/2023	उल्का 19/11/2025
केतु 06/09/2024	सिद्धा 09/11/2026
शुक्र 06/11/2027	संकटा 20/12/2027
सूर्य 18/10/2028	मंगला 09/02/2028
चन्द्र 20/05/2030	पिंगला 21/05/2028
मंगल 29/06/2031	धान्या 20/10/2028
राहु 05/05/2034	भामरी 11/05/2029
गुरु 15/11/2036	

ग्रह	व	अ	अंश	राशि	नक्षत्र	पद	स्वामी	अं.	स्थिति	षट्बल	चर	स्थिर	ग्रह तारा
लग्न			00:11:11	सिंह	मघा	1	केतु	केतु	---	0:00			
सूर्य			24:16:17	मेष	भरणी	4	शुक्र	बुध	उच्च राशि	1.67	भातृ	पितृ	वध
चंद्र			29:57:27	मक	धनिष्ठा	2	मंगल	शनि	सम राशि	1.02	आत्मा	मातृ	जन्म
मंगल			07:38:20	सिंह	मघा	3	केतु	गुरु	मित्र राशि	1.02	पुत्र	भातृ	साधक
बुध	अ		18:15:59	मेष	भरणी	2	शुक्र	राहु	सम राशि	0.79	मातृ	ज्ञाति	वध
गुरु			06:52:44	सिंह	मघा	3	केतु	राहु	मित्र राशि	1.35	ज्ञाति	धन	साधक
शुक्र			04:16:53	मिथु	मृगशिरा	4	मंगल	शुक्र	मित्र राशि	1.34	कलत्र	कलत्र	जन्म
शनि	व		26:47:12	सिंह	उ०फाल्गुनी	1	सूर्य	सूर्य	शत्रु राशि	1.26	अमात्य	आयु	मित्र
राहु			01:49:07	सिंह	मघा	1	केतु	शुक्र	शत्रु राशि	---	ज्ञान	साधक	
केतु			01:49:07	कुंभ	धनिष्ठा	3	मंगल	बुध	शत्रु राशि	---	मोक्ष	जन्म	



Astrologer Prashantgiri Goswami

Mahant Shree Vasukidada Mandir

www.astrologerguru.in

9824863217

prashantg88892@gmail.com

स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में सिंह राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी सूर्य है। सामान्यतया सिंह लग्न में उत्पन्न जातक साहसी तेजस्वी तथा पराक्रमी होते हैं। आत्मविश्वास की उनमें प्रधानता रहती है एवं स्वबुद्धि तथा परिश्रम से अपने सांसारिक महत्व के शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करते हैं जिससे ये धनऐश्वर्य एवं सुख संसाधनों को प्राप्त करते हैं तथा जीवन में सुख पूर्वक इनका उपभोग करने में समर्थ रहते हैं। धर्म के प्रति इनकी श्रद्धा रहती है तथा परोपकार संबंधी कार्यों में भी तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही ये लोग विश्वास के पात्र भी होते हैं। राजनीति, व्यापार या कार्य क्षेत्र में ये किसी सम्मानित पद की प्राप्ति करते हैं जिससे सम्मान प्रतिष्ठा तथा यश मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त इनमें नेतृत्व की क्षमता भी विद्यमान रहती है।

अतः इसके प्रभाव से आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा तथा अन्य जन आपसे प्रभावित रहेंगे। आप में निडरता का भाव भी विद्यमान रहेगा तथा अपने समस्त सांसारिक महत्व के कार्यों को आप निर्भीकता तथा बुद्धिमता से सम्पन्न करेंगी तथा इनमें आपको वांछित सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही भौतिक सुखैश्वर्य एवं उपकरणों को अर्जित करके आनंदपूर्वक इनका उपभोग करेंगी।

जीवन में अवसरानुकूल आप उदारता एवं पराक्रम के भाव का भी प्रदर्शन करेंगी। स्वबुद्धि एवं पराक्रम के द्वारा आप उन्नति प्राप्त करेंगी प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफल होंगी एवं आपके प्रतिद्वन्दी तथा शत्रु आपसे प्रभावित होंगे जिससे कार्यक्षेत्र में आपको इच्छित प्रतिष्ठा तथा यश की प्राप्ति होगी। परन्तु आपके प्रवृत्ति अन्य जनों को अपने से कुछ समझने की भी रहेगी। अतः इससे आपके मान सम्मान में न्यूनता आएगी। अतः सतर्क रहें।

लग्न में राहु की स्थिति के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा तथा यदा कदा मानसिक रूप से भी अशांति की अनुभूति करेंगी। आप में तेजस्विता का भाव प्रारम्भ से ही विद्यमान रहेगा परन्तु अनावश्यक उग्रता या क्रोध के भाव का आप प्रदर्शन करेंगी। अतः क्रोध के भाव की यत्नपूर्वक उपेक्षा करें। धनैश्वर्य से आप युक्त होंगी तथा मध्यम अवस्था में परिश्रम करके सुखैश्वर्य एवं भौतिक उपकरणों को अर्जित करेंगी।


यद्यपि स्वभाविक रूप से आप गम्भीर तथा धैर्यशाली महिला होंगी तथापि चंचलता की भी कमी नहीं होगी जिससे कार्यों को करने या निर्णय लेने में आप शीघ्रता का परिचय देंगी इससे आपको अनावश्यक व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा। भौतिक पदार्थों के प्रति आपके मन में तीव्र लालसा रहेगी तथा परिश्रमपूर्वक इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगी तथा इन्हें अर्जित करके आनंदपूर्वक उपभोग करेंगी। आपका मित्रता का क्षेत्र अल्प रहेगा तथा आवश्यक मात्रा में उनसे सुख एवं सहयोग की प्राप्ति होगी। साथ ही दुष्टमित्रों से आपको सावधान भी रहना चाहिए। इस प्रकार आप पराक्रमी तेजस्वी तथा परिश्रमी महिला होकर जीवन में सफलताएं प्राप्त करेंगी तथा आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगी।

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
माणिक्य	सूर्य	100%	भाग्योदय, स्वास्थ्य
मूंगा	मंगल	95%	स्वास्थ्य, भाग्योदय, सुख
पन्ना	बुध	80%	भाग्योदय, धनार्जन, धन
गोमेद	राहु	78%	स्वास्थ्य, भाग्योदय
पुखराज	गुरु	77%	स्वास्थ्य, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
हीरा	शुक्र	70%	धनार्जन, व्यावसायिक उन्नति, पराक्रम
लहसुनिया	केतु	66%	दम्पति, स्वास्थ्य
नीलम	शनि	22%	रोग, शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट
मोती	चंद्र	0%	शत्रु व रोग, व्यय



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
मंगल	16/11/1983	100%	9%	100%	67%	83%	70%	22%	66%	72%
राहु	15/11/2001	91%	0%	83%	80%	77%	77%	34%	91%	53%
गुरु	15/11/2017	100%	9%	100%	67%	89%	58%	22%	78%	66%
शनि	15/11/2036	91%	0%	83%	86%	77%	77%	47%	84%	53%
बुध	15/11/2053	100%	0%	95%	92%	77%	77%	22%	78%	66%
केतु	15/11/2060	91%	0%	100%	80%	77%	77%	0%	66%	78%
शुक्र	15/11/2080	91%	0%	95%	86%	77%	83%	34%	84%	72%
सूर्य	15/11/2086	100%	9%	100%	80%	83%	58%	0%	66%	53%
चंद्र	15/11/2096	100%	22%	95%	86%	77%	70%	22%	66%	53%

Astrologer Prashantgiri Goswami

Mahant Shree Vasukidada Mandir

www.astrologerguru.in

9824863217

prashantg88892@gmail.com

लग्न फल

आपका जन्म मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में सिंह लग्न के उदय काल में मेष राशि के नवमांश एवं सिंह राशि के द्रेष्काण में हुआ था। यह जन्मकालिक संयोजन उत्तम प्रकार की आकृति स्थापित कर आपको उत्तम प्रकार का व्यवहार कुशल प्राणी बनाया है।

आप जंगल का राजा सिंह के समान हैं। आप सभी प्रकार की स्थिति का पर्यावलोकन करने के लिए समर्थ हैं आपको प्रकृति ने सभी प्रकार के पत्ते को छँटने के लिए स्वामित्व प्रदान किया है। अर्थात् आप सभी प्रकार के कार्य का सम्पादन कर सकती हैं।

प्रकृति ने आपको साहसी आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने के गुणों से युक्त एवं समृद्धवान बनाया है। आप अच्छी प्रकार सोच विचार कर किसी भी विषय में कार्य करें तो आप विजयी हो सकती हैं। परन्तु विषय वस्तु को भली प्रकार अर्थात् सावधानी पूर्वक अग्रसारित करें। आप अन्य लोगों पर अपनी विश्वसनीयता का पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। आप मुक्त हस्त से धन का दुरुपयोग करेंगी तो सन्देह है कि आप इस प्रकार समर्थ नहीं हो सकेंगी। फलस्वरूप इस प्रकार धन का दुरुपयोग करना शोभनीय नहीं है। आप ऐसा अनुभव करें जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त होंगी तब तक आपके बैंक का शेष क्षीण हो जाएगा और आप धन के मामले में कमजोर हो जाएंगी। अन्य तथ्य यह है कि जब आपके धन की थैली अन्य के सहयोग में खर्च हो जाएंगे तथा आप इस प्रकार उदारता बरतने की अभिलाषी रही तो आपकी आकांक्षा अधूरी रह जाएगी। अतः आप दृढ़तापूर्वक अपनी (फिजूल खर्ची) अपव्यय को नियंत्रित करना परमावश्यक है। अतः आप इस प्रवृत्ति का परित्याग करें अन्यथा आपके जीवन के अन्त समय में धन का अभाव कष्टदायक एवं अनुभव पूर्ण रहेगा।

आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है। आप धर्मपारायण एवं अपने माता-पिता के प्रति निष्ठावान हैं। आपकी अभ्युक्ति सेवा भावना की रहती है तथा आप विश्वास पूर्वक मानव सेवा को भगवान की सेवा समझती हैं। परिणामस्वरूप आपके लिए अभावग्रस्त व्यक्तियों को निश्चित रूप से दान करना अनिवार्य है। अर्थात् आप पर्याप्त मात्रा में दान करने में सुखानुभूति करती हैं।

आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। आप भव्य, दीर्घकाय, चौड़े कन्धे वाली मुलायम और घने बालों वाली समय से पूर्व गंजा हो जाने वाले, वर्तमान काल के प्रभावशाली हुक्म चलाने वाली एवं प्रतिभा सम्पन्न दबंग महिला है। इसलिए आपके अनुकूल पद-प्रतिष्ठा हेतु प्रबन्धक भारी उद्योग/कम्पनी के उच्चाधिकारी या निगम के उच्चाधिकारी का पद उपयुक्त है। आरामदायक वस्तुओं का निर्माण करना अथवा ट्रेडिंग का कार्य करने से अच्छी आय होगी। विडियो कैमरा का कार्य व्यवसाय भी उत्तम होगा। अथवा इसके अतिरिक्त आप व्यवसायों में वित्तीय व्यवसाय बन्धक कार्य, भूमि भवन सम्बंधी क्रय-विक्रय, किराया, भूमि एवं कृषि कार्य अथवा पठन-पाठन, शैक्षणिक संस्थान का संचालन कार्य व्यवसाय भी आपके योग्य है।

सिंह लग्न/राधीय प्रभावित गुणों के आधार पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। संयोगवश यदा-कदा ज्वर पीड़ा से आक्रान्त भी हो सकती हैं परन्तु शीघ्रतापूर्वक आरोग्य लाभ

प्राप्त कर लेंगी। क्योंकि आप के शरीर में लौह गुण (शक्ति) विद्यमान है। इसके बाद सिंह राशीय निर्देशानुसार आप हृदय रोग, पीठ के रीढ़ की हड्डी रोगादि आपके स्वास्थ्य में न्यूनता ला सकता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन शोथ रोग तथा सिर में चक्कर आना संभाव्य है। अस्तु उत्तम तो यह होगा कि आप अधिक भोजन करना तथा अत्यधिक मद्यपान करने वाली प्रवृत्ति का त्याग करें। यदि आप पूर्णिमा का व्रत रखें तो यह अनिष्टकारी प्रभाव से रक्षा करने में सहायक होगा। आप प्रसन्नतम एवं आनन्ददायक पारिवारिक जीवन तथा स्वस्थ सन्तान एवं समझदार पति को सुख प्राप्त होगा।

आपके लिए साप्ताहिक दिनों में भाग्यशाली दिन रविवार, मंगलवार, और गुरुवार का दिन किसी भी बड़े कार्यों को प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त एवं ठीक है। परंतु बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार का दिन आपके नये कार्य-कलाप के प्रारंभ करने हेतु अनुपयुक्त हैं। कृपया इन तीन दिनों को अव्यवहारणीय समझे। सोमवार आप के लिए मध्य फलदायक है।

आपके लिए अंक 1, 4, 5, 6 एवं 9 अंक उत्तम है। इसके अतिरिक्त अंक 2 एवं 7 अंक आपके लिए अनुकूल नहीं हैं। आपके लिए नारंगी रंग, लाल एवं हरा रंग लाभदायक प्रमाणित होंगे।

ब्लू, सफेद एवं काला रंग आपके लिए सर्वथा त्याज्य है।

रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को शिव का अश्रु कहा जाता है। रुद्राक्ष दो शब्दों के मेल से बना है पहला रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव और दूसरा अक्ष इसका अर्थ होता है आंसू। माना जाता है की रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई वह मोती स्वरूप बूँदें हैं जिसे ग्रहण करके समस्त प्रकृति में आलौकिक शक्ति प्रवाहित हुई तथा मानव के हृदय में पहुँचकर उसे जागृत करने में सहायक हो सकी।

रुद्राक्ष की भारतीय ज्योतिष में भी काफी उपयोगिता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने में रुद्राक्ष का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में एक अचूक उपाय है। गम्भीर रोगों में यदि जन्मपत्री के अनुसार रुद्राक्ष का उपयोग किया जाये तो आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति व सामर्थ्य उसके धारीदार मुखों पर निर्भर होती है। रुद्राक्ष सिद्धिदायक, पापनाशक, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।

एक मुखी से लेकर चौदह मुखी तक रुद्राक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति और क्षमता अलग-अलग मुख रूप में दर्शित होती है। रुद्राक्ष धारण करने से जहाँ आपको ग्रहों से लाभ प्राप्त होगा वहीं आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। रुद्राक्ष का स्पर्श, दर्शन, उस पर जप करने से, उस की माला को धारण करने से समस्त पापों का और विघ्नों का नाश होता है ऐसा महादेव का वरदान है, परन्तु धारण की उचित विधि और भावना शुद्ध होनी चाहिए।

रुद्राक्ष दाने पर उभरी हुई धारियों के आधार पर रुद्राक्ष के मुख निर्धारित किये जाते हैं। रुद्राक्ष के बीचों-बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा होती है जिसे मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष में यह रेखाएं या मुख एक से 14 मुखी तक होते हैं और कभी-कभी 15 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष भी देखे गए हैं। आधी या टूटी हुई लाईन को मुख नहीं माना जाता है। जितनी लाईनें पूरी तरह स्पष्ट हों उतने ही मुख माने जाते हैं।

पुराणों में प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग-अलग महत्व और उपयोगिता का उल्लेख किया गया है -

एक मुखी - सूर्य ग्रह - स्वास्थ्य, सफलता, मान-सम्मान, आत्म - विश्वास, आध्यात्म, प्रसन्नता, अनायास धनप्राप्ति, रोगमुक्ति तथा व्यक्तित्व में निखार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है।

दो मुखी - चंद्र ग्रह- वैवाहिक सुख, मानसिक शान्ति, सौभाग्य वृद्धि, एकाग्रता, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक सौहार्द, व्यापार में सफलता और स्त्रियों के लिए इसे सबसे उपयुक्त माना गया है।

तीन मुखी - मंगल ग्रह- शत्रु शमन और रक्त सम्बन्धी विकार को दूर करने में सहायक होता है।

चार मुखी - बुध ग्रह- शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि - विवेक, और कामशक्ति में वृद्धि प्राप्त कराता है।

पांच मुखी - गुरु ग्रह- शारीरिक आरोग्यता, अध्यात्म उन्नति, मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए भी इसका उपयोग किया होता है।

छः मुखी - शुक्र ग्रह - प्रेम सम्बन्ध, आकर्षण, स्मरण शक्ति में वृद्धि, तीव्र बुद्धि, कार्यों में पूर्णता और व्यापार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कराता है।

सात मुखी - शनि ग्रह- शनि दोष निवारण, धन-संपत्ति, कीर्ति, विजय प्राप्ति, और कार्य व्यापार आदि में बढ़ोतरी कराने वाला है।

आठ मुखी - राहू ग्रह- राहु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, ज्ञानप्राप्ति, चित्त में एकाग्रता, मुकदमे में विजय, दुर्घटनाओं तथा प्रबल शत्रुओं से रक्षा, व्यापार में सफलता और उन्नतिकारक है।

नौ मुखी - केतू ग्रह- केतु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, सुख-शांति, व्यापार वृद्धि, धारक की अकालमृत्यु नहीं होती तथा आकस्मिक दुर्घटना का भी भय नहीं रहता।

10 मुखी - भगवान महावीर- कार्य क्षेत्र में प्रगति, स्थिरता व वृद्धि, सम्मान, कीर्ति, विभूति, धन प्राप्ति, लौकिक-पारलौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

11 मुखी - इंद्र ग्रह- आर्थिक लाभ व समृद्धिशाली जीवन, किसी विषय का अभाव नहीं रहता तथा सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं।

12 मुखी - भगवान विष्णु ग्रह- विदेश यात्रा, नेतृत्व शक्ति प्राप्ति, शक्तिशाली, तेजस्वी बनाता है। ब्रह्मचर्य रक्षा, चेहरे का तेज और ओज बना रहता है। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मिट जाती है।

13 मुखी - इंद्र ग्रह- सर्वजन आकर्षण व मनोकामना प्राप्ति, यश-कीर्ति, मान-प्रतिष्ठा व कामदेव का प्रतीक है। उपरी बाधा और नजर दोष से बचाव के लिए विशेष उपयोगी है।

14 मुखी - शनि ग्रह- आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, धन प्राप्ति व कष्टनिवारक हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैया में विशेष कष्टनिवारक है।

आपकी कुंडली और रुद्राक्ष

आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। आप अत्यंत तेजस्वी एवं आत्मविश्वासी हैं। अग्नि की ही भांति आप ऊर्जावान भी हैं किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं जो कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करके ही बैठते हैं। नीतियाँ बनाना एवं उन पर कार्य करना आपको विशेष पसंद हो सकता है। अनुशासनहीनता आपको बर्दाश्त नहीं होती है। जो नियम आप बनाते हैं, उन पर स्वयं भी कार्य करते हैं और दूसरों से करवाते भी हैं। अपना मान सम्मान आपको बहुत प्रिय होता है। यदि किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाते हैं। स्थिर लग्न होने से आपके स्वभाव एवं व्यवहार में भी स्थिरता होती है। आप जो भी कहते हैं, उस पर अंत तक स्थिर रहते हैं। जिस भी कार्य को आप शुरू करते हैं उससे अंत तक जुड़े रहते हैं। आप मानसिक और

प्रशासनिक कार्य अच्छे से करते हैं। इसके विपरीत हो सकता है की शारीरिक कार्य करना आपको अधिक पसंद न हो। आप जिनसे प्यार अथवा मित्रता करते हैं उस पर केवल अपना ही अधिकार समझते हैं और ये ईर्ष्या की हद तक होता है।

कुंडली के 6, 8 व 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भावों को शुभ भाव नहीं समझा जाता। इन भाव-भावों का सम्बन्ध जिन भी ग्रहों व भावों से बनता है उनकी शुभता में कमी आती है। त्रिक भावों को शुभ भाव नहीं समझा जाता। इन्हीं में से छठा भाव रोग, ऋण व सेवा भाव है। शत्रुओं का विचार करने के लिए भी इसी भाव का विश्लेषण किया जाता है। यह उपचय भाव भी है। इसके अलावा अर्थ भाव है। इस भाव के भावेश का अशुभ प्रभाव में होना, आपके स्वास्थ्य में कमी का कारण बन सकता है। दूसरा त्रिक भाव अष्टम भाव है। इस भाव से जिन विषयों का विचार किया जाता है, उन विषयों में आठवा भाव आयु, दुर्घटना, आपरेशन, अपयश व नैतिक पतन हैं। इस भाव से व्यक्ति को मिलने वाला अपमान, पदच्युति, शोक, ऋण, मृत्यु तथा व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटें देखी जाती है। अंतिम त्रिक भाव द्वादश भाव है, द्वादश भाव से व्यय, हानियां, कारावास, बंधन, विदेश में जीवन आदि का विचार किया जाता है।

इन भावों के स्वामियों और इन भावों में स्थित ग्रहों में अशुभता का अंश पाया जाता है। जिसके फलस्वरूप ये आपके जीवन को समय समय पर बाधित करते रहते हैं।

आपके लग्न के लिए षष्ठ भाव व सप्तम भाव के स्वामी शनि है, शनि षष्ठेश है, इसलिए आपको वात-पित्त रोग हो सकते हैं। विवेक व बुद्धि से शत्रुओं पर विजय, विद्या व बुद्धि से अल्प लाभ, संतान से न्यून सुख, जीवन संकटमय, व्यय अधिक, पराक्रम वृद्धि, भाई बहनों से अल्प सुख का कारण बन सकता है।

अष्टम भाव व पंचम के गुरु आपको दीर्घायु, प्रभावशाली दिनचर्या, विद्या व बुद्धि का अल्प लाभ, संतान से कष्ट, विदेश स्थानों से लाभ, माता, भूमि व सम्पत्ति से साधारण लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं।

द्वादश के चन्द्र है। द्वादशेश चन्द्र मानसिक सुखों में कमी, माता सुख में कमी करता है, धन और प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसके अतिरिक्त यह योग नजला-जुकाम और गुप्त शत्रुओं की वृद्धि करता है।

आपकी कुंडली में चन्द्र षष्ठ भाव में स्थित है। इसके परिणाम से शत्रुओं से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आप रोग पीड़ित, चिंताग्रस्त, व्याधिक्य करने की प्रवृत्ति से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त चन्द्र की अशुभता से आपके ऋण लेन-देन में बाधाएं आ सकती हैं।

इन सभी के फलों में शुभता प्राप्त करने के लिए आपको 2, 5, 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच धारण करना चाहिए। यह कवच सफेद धागे में डालकर सोमवार को गंगाजल से शुद्ध कर ॐ नम शिवाय मंत्र के 108 बार जप कर धारण करना चाहिए। तदुपरांत शिवजी को कच्चा दूध चढ़ाए। क्षमतानुसार दान करे। इस प्रकार आपके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा

मिलेगा एवं विशेष कष्टों में न्यूनता आएगी। कुंडली के सभी ग्रहों को शुभता प्रदान करने के लिए आप शिव कृपा रुद्राक्ष माला जो एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष से निर्मित होती है, भी धारण कर सकते हैं। एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष माला अद्भुत व चमत्कारी फल प्रदान करती हैं।

उपरोक्त कवच बिना दशा, गोचर विचार के आपको जीवन भर धारण करना चाहिए। क्योंकि यह कवच जन्म लग्न एवं उसमें स्थित ग्रहों के अवगुणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं।



स्वास्थ्य - 2025

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य ही रहेगा। मानसिक रूप से आप सन्तुष्ट नहीं रहेंगे। वर्षारम्भ में लग्न स्थान पर शनि की दृष्टि प्रभाव से मौसम जनित बीमारियों से परेशानी हो सकती है। मानसिक चिंता जैसी छोटी मोटी परेशानियां होती रहेंगी।

14 मई के बाद गुरुग्रह का गोचर शुभ स्थान में होने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन ही करें। संतुलित आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम भी करते रहें। जिससे आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी और आप का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से अनुकूल बना रहेगा।

जनवरी 2025 के लिए फलादेश

इस माह आप स्वयं में ऊर्जा और जीवन शक्ति का अनुभव करेंगे। सूर्य की शुभता आपको किसी भी प्रकार की गंभीर वेदनाओं से मुक्त रखेगी। अचानक से होने वाले रोगों से आपका बचाव होगा। इस छोटी अवधि में बड़ी बीमारियां काफी हद तक नियंत्रण में रहेंगी। परन्तु फिर भी आप स्वास्थ्य अनियमितताओं को बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उपचार से बचाव बेहतर रहेगा। स्वस्थता प्राप्त करना आपके लिए एक लम्बी और मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए एक छोटी सी बीमारी से पीड़ित होने पर शीघ्र चिकित्सा उपचार कराना आपके लिए एक अच्छा विचार होगा। यदि आप गंभीर बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको इस विचार का सख्ती से पालन करना चाहिए।

फरवरी 2025 के लिए फलादेश

इस माह आपको वायु के प्रभाव से होने वाले रोग, पाचन तंत्र, गठिया और पुरानी बीमारी होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आपको गठिया की समस्या पहले से चली आ रही हो तो इस समय में यह समस्या बढ़ सकती है। इस माह की रोग समस्याओं को रोकने के लिए सूर्य द्वारा दी जा रही सुरक्षा और जीवन शक्ति पर्याप्त नहीं रहेगी। किसी भी दुःख का ईलाज विशेष रूप से पाचन अंगों की समस्याओं का ईलाज शीघ्रता से कराना होगा। ग्रह, नक्षत्र आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान शीघ्रता से नहीं कर रहे हैं। फिर भी तीव्र गति से गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। पुरानी कब्ज जैसी शिकायतें होने की संभावनाएं बन रही हैं। पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने से इस विषय में आपको बड़ी मदद मिलेगी।

मार्च 2025 के लिए फलादेश

नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए इस माह बहुत अनुकूल नहीं हैं। इसके कारण से आपको अत्यधिक थकान हो सकती है। तथा तंत्रिका संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आप सामान्य दुर्बलता के शिकार हो सकते हैं। अस्वस्थता के बाद स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रक्रिया धीमी और थकाऊ हो सकती है। इसलिए आरोग्य लाभ प्राप्त करने की संभावना

मन्द गति से बन रही हैं। इसलिए रोग बढ़ने से पूर्व किसी भी हानि के होने से पहले वेदनाओं का ईलाज करना लाभकारी रहेगा। अत्यधिक परिश्रम करना आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ग्रहों की प्रतिकूल परिस्थितियों में सावधानियां लेने से स्वास्थ्य में प्रत्येक प्रकार की गिरावट से बचा जा सकता है।

अप्रैल 2025 के लिए फलादेश

इस माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। इस माह आपको बवासीर तथा पित्त की पथरी, होने की संभावना बन रही हैं। सूर्य के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन शक्ति की प्रतिकूलता की वजह से आपमें आरोग्य शक्ति की कमी रहेगी। साथ ही ग्रह स्थिति भी इस माह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं बनी हुई हैं। इस बात का खतरा बन रहा है कि अस्वस्थ हो जाने पर स्वास्थ्य प्राप्ति आपके लिए धीमा और थकाऊ हो सकता है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य हानि के बिना वेदनाओं का ईलाज समय रहते कराना बहुत हितकारी रहेगा। स्वास्थ्य समस्याओं की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वास्थ्य के प्रति एहतियात रखनी होगी। कुल मिलाकर यह माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने का संकेत कर रहा है।

मई 2025 के लिए फलादेश

इस माह आप स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहें। आप अचानक से होने वाली बीमारियां जैसे- बुखार एवं अत्यधिक क्रोध आना, आपके स्वास्थ्य विकार का कारण बन सकता है। रोगों से पीड़ित होने के बाद देरी से आरोग्य लाभ प्राप्ति आपकी चिंताएं बढ़ायेगी। रोगमुक्त होना आपके लिए एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है। बीमारी से पूरी तरह उबरने के लिए स्वास्थ्य की उचित देखभाल करनी होगी। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य को निरोगी रखने के लिए स्वयं पर अधिक से अधिक ध्यान देना समझदारी रहेगी। अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखना आपके दुःख या वेदनाओं के दुष्प्रभाव को रोकने का कार्य करेगा। इस माह में बन रही ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के विषयों के लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती हैं। ग्रहों की शुभता भी इस माह आपके स्वास्थ्य विकारों को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अतः सतर्क रहें।

जून 2025 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य सुख के पक्ष से यह माह आपके लिए एक अच्छा माह है। इस माह में सूर्य आपको अतिरिक्त साधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह सुरक्षा और जीवन शक्ति आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहें। इसके लिए आप अपना सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र तथा वायु से होने वाले रोग के प्रति अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के छोटा सा दुःख होने पर, किसी भी समय हानि के बिना तुरंत ईलाज करायें। अन्यथा आपके लिए स्वस्थ होना जटिल मामला सिद्ध हो सकता है। यह आपके लिए एक धीमी और

थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा इस माह स्वास्थ्य विषयों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सरल, सामान्य सावधानियां रखना पर्याप्त होगा।

जुलाई 2025 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह परिस्थितियां आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता सुनिश्चित करेंगी। वास्तव में सूर्य आपके जीवन को सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान कर आपकी आरोग्यता को बढ़ा रहे हैं। सूर्य शुभता से आप को बीमारियां शीघ्र अपने प्रभाव में ले सकती हैं। ग्रह शुभता होने से आप अपने स्वास्थ्य सुख को लेकर संतुष्ट रहेंगे। यदि किसी कारणवश आप के स्वास्थ्य में अनियमितता होती है तो फिर से स्वास्थ्य सुख प्राप्त करना आपके लिए एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। एक छोटे रोग का ईलाज कराने में आपको लम्बा समय लग सकता है। माह अवधि में बन रहे ग्रह स्थिति योग आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों को नियंत्रित कर रहे हैं। उपचार कराने की स्थिति का सामना आपको न करना पड़े इसके लिए आपको सामान्य एहतियात रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चिंता की कोई बात नहीं है।

अगस्त 2025 के लिए फलादेश

इस माह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर ख़ास सावधानी बरतें। अन्यथा आपको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में आपको कोई गले आदि में फोड़ा या पाचन तंत्र में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य अनियमितता के प्रति आपको गंभीर रहना होगा और रोगों के प्रति उदासीनता से बचना होगा। इस माह नक्षत्र और ग्रह स्थिति आपके बहुत अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको गंभीर रोगों से बचने के लिए आपको रोग होने पर शीघ्र चिकित्सा करानी होगी। आपको किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी होगी। इसके अलावा एक अन्य कारण भी है कि आप अपने फेफड़ों से जुड़ी वेदनाओं को लेकर सावधानी बरतें। इस माह आपको कफ अथवा खांसी की समस्या हो सकती है। प्रारंभित उपचार से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं।

सितम्बर 2025 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको रोगों से मुक्त रखेगा। आपको असाधारण जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा। रोगों से लड़ने की शक्ति आपमें अधिक होने से आप रोगों के प्रभाव में शीघ्र नहीं आयेंगे। रोग ग्रस्त होने पर आपके स्वास्थ्य में तेजी के साथ लाभ होगा। सूर्य शुभता से आपको नेत्रों, अस्थियों, सिर, हृदय, प्राण शक्ति, रक्त तथा पित्त संबंधी आदि रोग प्रभावित नहीं कर पायेंगे। इस माह में आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तथा स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। आंशिक रूप से आपको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। अचानक से बुखार आना तथा शीघ्र क्रोध की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में होने वाले विकारों को अनदेखा करने पर छोटे रोग गंभीर रोग में परिवर्तित हो सकते हैं। सावधान रहें।

Astrologer Prashantgiri Goswami

Mahant Shree Vasukidada Mandir

www.astrologerguru.in

9824863217

prashantg88892@gmail.com

अक्टूबर 2025 के लिए फलादेश

यह माह आपके स्वास्थ्य के पक्ष से अनुकूल रहेगा। सूर्य शुभता आपको रोग मुक्त रखने में पूरा सहयोग करेगी। आप स्वयं में ऊर्जा और जीवन शक्ति के एक बड़े स्रोत का अनुभव करेंगे। फिर भी आपको अपने पाचन तंत्र, नेत्र रोगों तथा मुंह रोगों से बचाव का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। वायुप्रद रोग, गठिया और पुराने रोगों से स्वयं का बचाव करना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सामान्य सावधानी बना रख आप रोगों को नियंत्रित रख पायेंगे। इसके अतिरिक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अनावश्यक देरी किए बिना, किसी भी बीमारी के प्रभाव में आने पर आपको शीघ्र चिकित्सा उपचार लेनी चाहिए। साथ ही अपने हृदय से संबंधित रोगों की जांच भी आपको बारीकी से कराते रहना चाहिए।

नवम्बर 2025 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य आपको असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है। सूर्य शुभता आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगी। शारीरिक कमजोरी और तंत्रिका संबंधी विकार संबंधित स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। इस माह आप अपने ऊपर अत्यधिक तनाव न लें। आपकी यह प्रवृत्ति मजबूत शारीरिक शक्ति के बावजूद स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाते हुए स्वयं को स्वस्थ दिखाना आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। अस्थमा और पानी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए सामान्य तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र चिकित्सा लेनी लाभकारी रहेगी। यदि आप थकावट और अत्यधिक तनाव से बचाव करते हैं तो आपको कोई गंभीर खतरा नहीं होगा।

दिसम्बर 2025 के लिए फलादेश

इस माह सूर्य का सुरक्षा कवच आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सूर्य द्वारा आपको प्रदत्त रोगों से लड़ने की शक्ति, जीवन शक्ति और सुरक्षा शक्ति आपको जुकाम और पाचन अंगों से संबंधित बीमारियों से मुक्त नहीं रख पायेंगी। इस माह यदि आप किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो स्वस्थ हो जाना एक कठिन और धीमी उबाऊ प्रक्रिया हो सकती है। इस समय में आपको अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। इसके अतिरिक्त रोग बढ़ने पर हालात बिगड़ जायेंगे और स्थिति आपके हाथ से निकल जाएगी। सचेत रहना सुरक्षित रहेगा। समय की हानि किये बिना शीघ्रता से चिकित्सा उपचार कराना और अच्छी तरह से देखभाल करने से स्वास्थ्य सुख वापस प्राप्त किया जा सकता है। इस माह के ग्रह योग आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य - 2026

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्य रहेगा। शनि एवं राहु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकता है। अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है परन्तु एकादशस्थ गुरु के प्रभाव से आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे।

02 जून के बाद छोटी मोटी बीमारियों से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आर्थिक मुद्दे या किसी और मुद्दे को ले कर आवश्यकता से ज्यादा चिंता न करें। नहीं तो इन सबका नकारात्मक प्रभाव आपके सेहत पर पड़ेगा। द्वादशस्थ गुरु के जल तत्व राशि में होने के कारण कफ रोग या मौसमजनित बीमारियां हो सकती हैं। सुबह-सुबह व्यायाम करना या योग करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। 31 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य अनुकूल होना शुरू हो जाएगा।

जनवरी 2026 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका मन और शरीर काफी स्वस्थ और मजबूत रहेंगा। स्वयं की स्वस्थता हेतु आपको अपने छोटे दुःख की भी तत्काल चिकित्सा करानी होगी। दुःख के आरम्भ में ही देखभाल करने से रोग बड़ा नहीं होगा और उसका समय पर समाधान हो जाएगा। समय-समय पर जांच करते रहने से गंभीर बीमारी की संभावना समाप्त होगी। अचानक से होने वाले रोगों पर भी यह उपाय नियंत्रण बनाए रखेगा। परन्तु इस माह नेत्र संक्रमण की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य देखभाल करने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक अच्छा माह रहेगा। स्वास्थ्य उपचार से संबंधित चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

फरवरी 2026 के लिए फलादेश

अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको इस माह बहुत अधिक सावधान रहना होगा। जिन व्यक्तियों को पाचन तंत्र, वायु रोग, गठिया तथा जीर्ण रोग जैसी पुरानी बीमारियां हैं। उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। यही कारण है कि आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी और उचित देखभाल रखते हुए आवश्यक पड़ने पर उचित उपचार भी लेते रहें। इनमें से किसी भी प्रकार की देरी गंभीर प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है। ग्रह नक्षत्र का पूरा सहयोग प्राप्त न होने के कारण ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा इस माह आपका अत्यधिक भोजन करना भी परेशानी खड़ी कर सकता है। सावधानी के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करते हुए, अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रख सकते हैं।

मार्च 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से स्वास्थ्यवर्धक बनी हुई हैं। अल्सर, पीठ और पुरानी अनियमितता की शिकायतों से इस माह आपको राहत मिलना बहुत

बड़ा लाभ होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता की विफलता होने पर आप अपने लिए स्वास्थ्य कष्टों को बढ़ा सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए सदैव सतर्क बने रहें। अपनी स्वास्थ्य सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना आप के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इससे आपको बचने की जरूरत है। आप अनावश्यक रूप से मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार से दबाव लेने से बचें। इससे आप लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह माह स्वास्थ्य के मामलों के लिए चिंता का विषय नहीं रहेगा।

अप्रैल 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान कर रही है। इस माह अनुकूल ग्रह, नक्षत्र स्थिति होने से आपका स्वास्थ्य प्रबल बना रहेगा। जिन व्यक्तियों को जुकाम, खांसी, बवासीर आदि जैसी वेदनाएं होने का खतरा आंशिक रूप से बन रहा हो, उन व्यक्तियों को सामान्य सावधानियां बनाए रखनी चाहिए। साथ ही इस माह के मध्य कोई गंभीर समस्या होने की संभावना नहीं बन रही है। अतः स्वास्थ्य सुख के लिए सामान्य सावधानियों का त्याग न करें। इसके अतिरिक्त किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। स्वास्थ्य विषयों के लिए सामान्य सतर्कता बनाए रखना अच्छा रहेगा। यह माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हर तरह से बहुत संतोषजनक बना हुआ है।

मई 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होकर स्वास्थ्य शुभता का आशिर्वाद दे रही है। इसके अलावा पुरानी अनियमितता होने का खतरा न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। अचानक से होने वाले रोग जैसे बुखार या शीघ्र क्रोध आना जैसी बीमारियों का चिकित्सा उपचार शीघ्र कराना होगा। इससे रोग नियंत्रित रहेंगे और गंभीर बीमारियां जन्म नहीं ले पायेंगी। इस माह का मिला जुला भाग्य आपको लापरवाही न बरतने पर दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बना रहा है। आवश्यक देखभाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

जून 2026 के लिए फलादेश

आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही न करें, स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए आपकी तत्परता आवश्यक है। ग्रह एवं नक्षत्रों की शुभता आपके सभी स्वास्थ्य विकारों का समाधान कर रही है। आंशिक रूप से पाचन शिकायतें, गठिया, वायु रोग एवं पुराने रोगों का न उभरना आपको राहत देगा। परन्तु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य विकारों को अनदेखा करने लगें। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप सामान्य सावधानी रखें और गंभीर विषयों का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की किसी भी छोटी सी शिकायत को भी आपको नजर अंदाज नहीं करना है। इससे यह माह आपके लिए शुभ होकर अनुकूल बना रहेगा।

जुलाई 2026 के लिए फलादेश

आने वाले माह में आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं बन रहे हैं। लेकिन सख्ती से आवश्यक बचाव का पालन कर, आप काफी हद तक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने में सफल रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप एहतियात के रूप में अधिक परिश्रम करने से बचे। स्वयं पर अनुचित दबाव न लेते हुए आप सामान्य गतिविधियों के द्वारा अपने आवश्यक कार्यों की सूची बना उनका पालन करना चाहिए। इससे आप स्वास्थ्य के संबंध में होने वाली संभावित हानियों से बच सकते हैं। इस माह में आपमें कुछ घबराहट की स्थिति बन सकती है। आवश्यक योग अभ्यास, सुबह की सैर करने से ग्रहों की स्थिति की प्रतिकूलता को कम कर सकता है। ऐसा करने से आप अपने स्वास्थ्य विकारों से बाहर आ सकते हैं।

अगस्त 2026 के लिए फलादेश

इस माह भाग्य की शुभता आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे है। पुरानी अनियमितताओं के न होने का खतरा आपको काफी राहत का अनुभव कराएगा। सभी प्रकार की सावधानी बरतें। वायु रोगों से भी आप बचाव का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से न लेना किसी बड़े रोग को निमंत्रण देना हो सकता है। सामान्य सावधानियां रखने से ही आप गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। विशेष रूप से आपको जुकाम, खांसी, कफ जैसी वेदनाओं को लेकर सावधान रहना चाहिए। एक मामूली बीमारी होने से इसका ईलाज तुरंत करना चाहिए। अन्यथा कठिनाईयां हो सकती हैं। इस विषय में यह समय आपके लिए सचेत रहना का रहेगा।

सितम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह ग्रहों की स्थिति, योग आपके स्वास्थ्य सुख के लिए अनुकूल बन रही हैं। इससे पूर्व किसी भी प्रकार की पुरानी अनियमितताओं जैसे बुखार, शीघ्र क्रोध आना इत्यादि में इस माह में कमी आएगी। फिर भी आप अचानक से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं बन रही हैं। स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करने के लिए आप आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी किए समय पर ईलाज करायें। ग्रह स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से शुभ होने के कारण इस अवधि में सरल सामान्य देखभाल से भी आपको बहुत लाभ पहुंच सकता है। विशेष रूप से इस माह आपको सिर से जुड़े विभिन्न रोग होने की आंशिक संभावनाएं बन रही हैं। बालों में तेजी से गिरावट की स्थिति बन सकती हैं।

अक्टूबर 2026 के लिए फलादेश

उस माह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। इस माह पुराने रोग जैसे पाचन तंत्र, वायु रोग एवं गठिया रोग होने का खतरा है। इस विषय में अत्यंत सावधानी बरतना हितकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त आप गले की खराश से पीड़ित होने की संभावना बन रही हैं। आपको अपने हृदय की जांच सूक्ष्मता से करानी चाहिए।

इससे हृदय रोगों का पता समय रहते चल जाएगा। इस माह बन रहे ग्रह, नक्षत्र और योगों के अनुसार रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा राहत प्राप्ति एक अच्छा विचार होगा। यह माह आपके स्वास्थ्य के पक्ष से अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस अवधि में स्वयं की देखभाल करने की विशेष आवश्यकता पड़ सकती है।

नवम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर व्यय करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के पक्ष से यह स्थिति बहुत प्रेरणादायक नहीं है। फिर भी छोटी छोटी सावधानियां बनाए रखने से आप चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। अस्थमा और तरह-तरह की जीर्ण अनियमितताओं के होने का खतरा बन रहा है। लगातार उचित देखभाल सुनिश्चित करने से आप हालात की गिरावट को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने सामर्थ्य शक्ति से अधिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। अन्यथा सामान्य दुर्बलता की स्थिति भी आपके लिए काफी नुकसान देह हो सकती है। सामान्य सावधानियां निर्धारित करने से और चिंताजनक स्थितियों से स्वयं को दूर रखने से स्थिति आपके नियंत्रण में बनी रहे।

दिसम्बर 2026 के लिए फलादेश

माह अवधि में बन रहे ग्रह, नक्षत्र और स्थिति आपके स्वास्थ्य के मामलों के बारे में बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। इस अवधि विशेष में आपके पाचन अंग आसानी से अव्यवस्थित हो सकते हैं। आपको जुकाम, खांसी, दमा जैसी पुरानी शिकायतें परेशान कर सकती हैं। इन रोगों को निष्प्रभावी करने के लिए आपका योग-व्यायाम सावधानी के रूप में करना चाहिए। तथा स्वास्थ्य में किसी भी तरह की अनियमितता, वेदना का गंभीरता से ईलाज करना चाहिए और आवश्यक दवाएं भी लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के हालात काफी तेजी से बिगड़ सकते हैं। इस विषय में किसी भी तरह की विफलता होने पर स्वास्थ्य ओर खराब होकर समस्या पैदा कर सकता है। यह एहतियात बरतने से आप स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकटों से बच सकते हैं। इन उपायों को आप विशेष रूप से इस माह प्रयोग कर सकते हैं।

स्वास्थ्य - 2027

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्यतः अनुकूल नहीं रहेगा। द्वादशस्थ गुरु एवं अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कफ, मधुमेह एवं पेट संबंधित बीमारियों के कारण आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। मौसम जनित बीमारियों से भी आप परेशान हो सकते हैं। अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से कभी-कभी बीमारी नहीं होने के बावजूद भी बीमारी जैसा अनुभाव होता रहेगा।

26 जून के बाद गुरु ग्रह का गोचरीय प्रभाव लग्न स्थान में होने से स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ आपका खान-पान एवं दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। लग्न स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने से आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे, जिससे आप का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आपकी धर्म पत्नी भी आपकी सेहत का पूर्ण ध्यान रखेंगी। 03 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत फिर से प्रभावित हो सकती है।

जनवरी 2027 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों की स्थिति आपके लिए शुभ नहीं बन रही है। इस अवधि में आपको अपने पुराने रोगों के प्रति सतर्क रहना होगा। स्वस्थता बनाए रखने के लिए आपको स्वयं अपना ख्याल रखना होगा। आपको अचानक बुखार या तीव्र किस्म की सूजन परेशान कर सकती हैं। तुरंत और सही ईलाज की शुरुआत करने से रोगों को आरम्भिक अवधि में ही नियंत्रित किया जा सकता है। आपको लिवर रोग परेशान कर सकते हैं। यदि आपके लिवर में इससे पूर्व भी विकार हुआ है तो आपको ऐसे रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए खास ध्यान रखना होगा। अपनी स्वास्थ्य शुभता बनाए रखने के लिए आप टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। समय की शुभता अनुकूल न होने के कारण आपको सावधानी का प्रयोग करना होगा।

फरवरी 2027 के लिए फलादेश

ग्रह सितारों इस माह आपके लिए बहुत शुभ योग में न होने के कारण आपको अपना शुभ आशिर्वाद प्रदान नहीं कर हैं। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी हो सकती हैं। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे। आपको अपनी अधिक देखभाल, उपचार और आहार का ख्याल रखना होगा। इससे पूर्व यदि आपको लिवर संबंधित रोग रहे हैं तो इस समय में इन रोगों की वापसी हो सकती है। इस संबंध में घटने वाली घटनाएं आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अपने लिवर रोगों की रोकथाम के लिए आप कोई उपयुक्त दवा का सेवन कर सकते हैं। सावधानी रखना, रोगों को गंभीर होने से बचाएगा।

मार्च 2027 के लिए फलादेश

Astrologer Prashantgiri Goswami

Mahant Shree Vasukidada Mandir

www.astrologerguru.in

9824863217

prashantg88892@gmail.com

आपकी स्वास्थ्य अनुकूलता के पक्ष से यह माह प्रतिकूल बना हुआ है। कुछ विशेष सावधानियां रखना हितकारी रहेगा। रोगों का समय पर ईलाज न कराने से रोग गंभीर रूप ले सकते हैं। माह अवधि में अत्यधिक परिश्रम करने की वजह से आप सामान्य दुर्बलता से पीड़ित हो सकते हैं। आपको अनावश्यक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस स्थिति में सुधार करने के लिए आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को पुनःनिर्धारित करना होगा। इस माह में पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। लिवर आदि रोगों की रोकथाम के लिए आपको एहतियात के रूप में कोई दवा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी लिवर परेशानियों को नियंत्रित रखना होगा। परहेज के रूप में आप लिवर के लिए एक अच्छा टॉनिक ले सकते हैं।

अप्रैल 2027 के लिए फलादेश

इस माह में सितारों की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इसलिए आपको इस माह में अपने स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं के विषय में सावधान रहना होगा। बवासीर से पीड़ित लोगों को इसके ईलाज और आहार के लिए पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतने से आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व लिवर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग रहा हो तो आपको इन रोगों से बचाव करने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी। इन रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी जो भी दवाईयां आप लेते हो उन दवाईयों में चूक न करें। लिवर को स्वस्थ करने के लिए कोई अच्छा टॉनिक भी आप ले सकते हैं। इस माह में आपके स्वास्थ्य से संबंधित घटने वाली घटनाएं आपके अनुकूल नहीं होंगी। सावधानी रखना उत्तम रहेगा।

मई 2027 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के पक्ष से यह माह आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन हुआ है। इस माह अवधि में आपको बुखार या सूजन आदि की परेशानी हो सकती हैं। अचानक से गंभीर रोग आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। किसी भी रोग के आंशिक लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत उपचार लेना चाहिए। स्वास्थ्य अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं करना है। ईलाज में देरी से आपकी स्थिति में तेजी के साथ हालात खराब हो सकते हैं। इसके अलावा इस माह में दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन सकती है। आपको ऐसी घटनाओं के प्रति रक्षा और सावधानी बरतनी होगी। यह आपके लिए एक कठिन समय है इस दौरान घटनाएं आपके प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इसलिए अत्यंत सावधानी रखनी होगी।

जून 2027 के लिए फलादेश

इस माह में आपके स्वास्थ्य को सुखद बनाए रखने के लिए किसी तरह का प्रोत्साहन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। सावधानी, काफी देखभाल और थोड़ा व्यायाम आपके लिए इस अवधि में हितकारी रहेगा। गठिया जैसे पुराने रोगों में अनियमितता, वायु रोग और पेट फूलन एवं पाचन तंत्र की गड़बड़ी स्वास्थ्य विकार उत्पन्न कर सकती हैं। पुराने रोगों को शांत

रखने के लिए आपको उपचार के साथ साथ परहेज का पालन भी करना होगा। अपनी स्वस्थता के प्रति अत्यधिक सतर्कता आपके लिए हितकारी साबित हो सकती हैं। सतर्कता में विफलता आपके स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा सकती हैं। पुराने लिवर रोगों का इतिहास होने पर इन रोगों के लिए भी आपको चिकित्सक की सलाह अनुसार अपनी जीवन शैली निर्धारित करनी होगी। निवारक उपाय के रूप में आप स्वयं को चुस्त रखने के लिए किसी आवश्यक टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं।

जुलाई 2027 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में ग्रहों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को शुभ कर आपको प्रोत्साहित कर रहा हैं। इस माह में आप सामान्य सतर्कताओं का पालन कर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। माह अवधि में आप अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत कार्य न करें। यह आपके स्वास्थ्य में कमी करेगा और आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। अपनी ऊर्जा शक्ति का अनावश्यक व्यय बचाने के लिए आप स्फूर्ति और स्वस्थता के लिए खेल गतिविधियों को समय दे सकते हैं। कार्यभार की अधिकता से बचने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक सूची तैयार कर कार्यों को दिनभर के समय में बांट सकते हैं परन्तु आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कार्यक्रम का कठोरता से पालन करें। इस विषय में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त सितारे इस माह आपको ओर कोई परेशानी नहीं देंगे।

अगस्त 2027 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत ज्यादा प्रेरणादायक और उत्साहजनक नहीं हैं। हमेशा की तरह इस स्थिति में आपको अपने रोगों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं के प्रयासों और बुद्धि पर काफी भरोसा करना होगा। जुकाम, खांसी जैसी गड़बड़ियों से आपको काफी परेशानी हो सकती हैं। ऐसे रोगों का आपको हर संभव उपचार और ध्यान रखना होगा। लिवर रोगों की पुरानी परेशानी होने पर आपको इनसे बचाव के उपाय करने लाभकारी रहेंगे। लिवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप आवश्यक टॉनिक ले। यह आपके रोगों में कमी करने में मदद करेगा। माह अवधि के सितारें आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। आपको ख्याल रखना होगा।

सितम्बर 2027 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के बारे में इस माह की भविष्यवाणी काफी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। शीघ्र होने वाले रोग जैसे अचानक बुखार या सूजन होने पर आपको शीघ्र ईलाज करना हितकारी रहेगा। कुछ सावधानियां रखने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य अनियमितताओं को अनदेखा करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। रोग के प्रथम लक्षण स्पष्ट होने पर ही चिकित्सा सहायता लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह बहुत आवश्यक है कि आप सावधानियों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा बना रहें आपको यह सुनिश्चित करना है। तथा

आपको घटनाओं को समझ कर कठिनाईयों को दूर करना हैं। यह भी हो सकता है कि यह एक सुरक्षा कवच की तरह से काम करें। इसलिए अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार की लिवर समस्या है तो आपको इसके उपचार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क कर ईलाज कराना और कोई टॉनिक लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

अक्टूबर 2027 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में सितारों की स्थिति आपके प्रतिकूल होने के कारण आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा हैं। इसलिए स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं ही रखना होगा। ग्रह स्थिति के अनुकूल न होने से इस माह में आपको पेट फूलना, वायु रोग, पाचन तंत्र और पुराने रोग के कारण चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ सकती हैं। ऐसे रोगों को निष्प्रभावी करने के लिए आपको उपचार और आहार के विषयों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका नुकसान स्वयं भुगतना होगा। इसके अलावा आपको लिवर की बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। माह अवधि में अपना विशेष ख्याल रखना आपके लिए मददगार सिद्ध होगा।

नवम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह ग्रह, नक्षत्र योग बहुत शुभ नहीं बने हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपको निरोगी बने रहने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अनियमितताओं को किसी प्रकार से अनदेखा न करना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। सबसे पहले आप अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम करने से बचें। इससे आप में शारीरिक दुर्बलता आ सकती हैं। साथ ही स्नायु संबंधी विकार भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। इस माह से जुड़ी सभी समस्याओं का स्रोत अत्यधिक परिश्रम आ रहा है। इसलिए आपको इस विषय पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। कार्य भार का वितरण करने से स्वास्थ्य विकारों पर नियंत्रण बना रहेगा। समय बहुत अच्छा नहीं है इसलिए ख्याल रखें।

दिसम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपको किसी भी प्रकार की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी सावधानियों को एक तरफ कर दें। इस माह अवधि में अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को पाचन अंगों की परेशानियां निष्क्रिय रहने से आपको इन परेशानियों से कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन उपचार और आहार दोनों मामलों में सामान्य सावधानियां जारी रखनी होगी। छाती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संक्रमणों के प्रति आपको खास ध्यान रखना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार के लक्षण उभरने पर तुरंत, बिना किसी देरी के उपचार कराना होगा। इन छोटी सी सतर्कताओं से आप इस माह अपने स्वास्थ्य शुभता को बनाए रख सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य पूरे माह अच्छा रहना चाहिए।

स्वास्थ्य - 2028

अष्टमस्थ शनि के प्रभाव से वर्षारम्भ में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा परन्तु 28 फरवरी के बाद लग्न स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव के बाद समय बहुत अच्छा हो रहा है। लग्न स्थान पर शुभ ग्रह होने से आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से सन्तुष्ट रहेंगे। प्रत्येक कार्य को सकारात्मक रूप से करेंगे। आपके अन्दर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी।

वर्ष के उत्तरार्द्ध में लग्न स्थान पर राहु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपका स्वास्थ्य किंचित प्रभावित हो सकता है। मौसमजनित बीमारी या आलस्य की भावना उत्पन्न हो सकती है परन्तु आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए नियमित व्यायाम करेंगे। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें।

जनवरी 2028 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के लिए यह माह आंशिक रूप से अनुकूल बन रहा है। सितारों का संयोजन आपके लिए बहुत कम शुभ स्थिति बना रहा है। बुखार एवं शीघ्र क्रोध में आना जैसी गड़बड़ियां आपको परेशानी दे सकती हैं। अचानक से गंभीर बीमारी आपकी चिंताएं बढ़ा सकती है। अतिरिक्त देखभाल करने और बहुत शीघ्र उपचार जैसे कदम उठाना आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार का नेत्र संक्रमण होने की संभावनाएं बन रही हैं। सावधान रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। अन्यथा आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अशुद्ध खाने के प्रति आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। विषाक्त भोजन के कारण आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकती हैं। यह अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको इस समय में अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए।

फरवरी 2028 के लिए फलादेश

सितारों की शुभता आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए बहुत उदार नहीं बनी हुई है। इसलिए इस माह में आपको कुछ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट फूलना, पाचन तंत्र, वायु रोगों के रोग तथा पुरानी बीमारियों में फिर से गड़बड़ी हो सकती है। आहार और उपचार दोनों पर निगरानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आहार पर नियंत्रण रखने से आप आसानी से अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। सावधानी के साथ-साथ व्यायाम करने से भी स्थिति में सुधार होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है इसलिए अधिक से अधिक ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

मार्च 2028 के लिए फलादेश

इस माह सितारों की अनुकूलता से आपके स्वास्थ्य विकारों का समाधान हो रहा

है। ग्रहों की शुभता यह सुनिश्चित कर रही है कि इस अवधि में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके स्वभाव में भी गंभीरता कम और उत्साह अधिक होगा। अत्यधिक परिश्रम के खिलाफ आपको सतर्कता बरतनी होगी। अत्यधिक परिश्रम इस समय बनी हुई सुखद स्थिति को खराब कर सकता है। अनावश्यक रूप से अपने शारीरिक तंत्र पर तनाव डालना ठीक नहीं होगा। अपने दैनिक गतिविधियों को इस प्रकार निर्धारित करें कि आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के एक बड़े हिस्से का सुधार होगा। इस विषय में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तनाव से बचना आपके स्वास्थ्य सुख के लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा इस माह की अनुकूल परिस्थितियां भी किसी गंभीर समस्याओं को रोकने में असमर्थ हो सकते हैं। समय की शुभता होने से इस माह की स्थिति उत्साहजनक बनी हुई है।

अप्रैल 2028 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के पक्ष से यह समय आपके सितारों के अनुसार बहुत अनुकूल समय नहीं है। बवासीर जैसे रोगों में गड़बड़ी होने से आप परेशान हो सकते हैं। माह अवधि में अतिरिक्त देखभाल और ध्यान का प्रयोग करना होगा। स्वभाव में विनम्रता की कमी तथा स्वभाव में गंभीरता हो सकती है। यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। काम विषयों में कमी करने से आपके यौन संक्रमण में कमी हो सकती है। आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि इस विषय में आपको अपनी अधिक से अधिक देखभाल करनी होगी। किसी बासी खाद्य या अशुद्ध भोजन सेवन से भी स्वास्थ्य सुख में कमी होने की आशंका बन रही है। विषाक्त भोजन करने से बचें। इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सतर्कता रखनी होगी। कुल मिलाकर यह अवधि सावधानी रखने पर अनुकूलता लिए हुए है।

मई 2028 के लिए फलादेश

इस माह में बन रही ग्रहों की स्थिति आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होना सुनिश्चित कर रही है। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। इस माह में बुखार, सूजन या अचानक से किसी गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। आपका स्वभाव उत्साहजनक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम जैसे विकारों से ग्रस्त लोगों को भी राहत मिलेगी। फिर भी इस माह दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य की कुछ अतिरिक्त देखभाल करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता को प्रोत्साहित कर रहा है।

जून 2028 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होने का योग सुनिश्चित कर रहे हैं। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। बुखार,

सूजन या अचानक से होने वाली गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार की समस्याओं के शांत रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस माह अवधि में आपका स्वभाव अनुकूल और सकारात्मक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम आदि विकारों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जीर्ण बीमारियों की वापसी न होने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह में आपको कोई हिंसक चोट लगने की संभावना नहीं बन रही है। अतिरिक्त देखभाल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता लिए हुए एक सुखद माह सिद्ध हो सकता है।

जुलाई 2028 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के लिए यह माह काफी फायदेमंद माह रहेगा। इस माह आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। फिर भी इस अवधि में आपको अधिक परिश्रम करने से परहेज करते हुए, सतर्कता बरतनी चाहिए। यह आपके लिए स्वास्थ्य समस्याओं के आमंत्रण का कारण बन सकता है। परिश्रम की अधिकता आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल सकती है। काया और गतिविधियों का पूर्वनियोजन आपको अतिरिक्त दबाव से बचाएगा। वरना कुछ अनहोनी होने की संभावना बन सकती है। उपचार की तुलना में हमेशा एहतियात बेहतर रहेगा तथा माह अवधि में आपको विषाक्त भोजन के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन करते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। यह लाभकारी माह है जिसके दौरान आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे।

अगस्त 2028 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखेगा। माह की संभावनाएं आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता को प्रोत्साहित कर रही है। आप स्वभाव से प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। आपमें उत्साह का भाव बना रहेगा। ठंड में हाथ और पैरों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस माह में आपका नर्वस तंत्र आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है। भोजन विषाक्तता की स्थिति बन सकती है। अशुद्ध भोजन करने से बचें अन्यथा स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। सावधानी रखने से कठिनाईयां कम से कम होंगी और यह आपके लिए काफी फायदेमंद माह सिद्ध होगा।

सितम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों आपके स्वास्थ्य कमियों को दूर कर रोगों का निपटारा कर रहे हैं और अन्य किसी रोग को लेकर गंभीर चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वयं को सुखमय बनाए रखने के लिए आप जीवन में नकारात्मक विचार धारा से दूर होकर हंसमुख बने रहें। इससे आपकी आरोग्यता दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित होगी। साथ ही बुखार, सूजन एवं गंभीर बीमारियों के शांत रहने से आपको रोग कठिनाईयों से बड़ी राहत प्राप्त होगी। इस अवधि काल में आपको सिर से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस प्रकार के रोग के गंभीर रूप धारण करने से पहले आप इसके निवारक उपाय के रूप में सिर के लिए टॉनिक का प्रयोग कर

सकते हैं। यह माह आपके लिए काफी संतोषजनक माह सिद्ध होगा क्योंकि इस माह में आपके किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की संभावना नहीं है।

अक्टूबर 2028 के लिए फलादेश

इस माह अवधि के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को सुनिश्चित कर रहा है। माह अवधि में सतर्कता और सावधानी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। पाचन तंत्र, गठिया जैसी अनियमितताओं में गड़बड़ी होने से आपकी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ सकती हैं। माह अवधि में आपको बहुत अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गले के रोग आपको स्वास्थ्य परेशानियां दे सकते हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई रोग या लक्षण दिखाई देता है तो आपको इनकी जटिलताओं की बारीकी से जांच करानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा।

नवम्बर 2028 के लिए फलादेश

यह माह आपके सितारों की स्थिति के अनुसार अनुकूल माह सिद्ध हो रहा है। इस माह में ग्रहों के द्वारा आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान हो रहा है। सतर्कता बनाए रखना इस अवधि की विशेष मांग बन रही है। इस माह अवधि में आपको अपने शारीरिक सामर्थ्य से अधिक परिश्रम नहीं करना है। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपने शारीरिक तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ने से बचाने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक तर्कसंगत अनुसूची तैयार कर उसके अनुसार अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप खेल गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रख भी आप अपने स्वास्थ्य सुख में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अपने कार्यों की अनुसूची का कठोरता से पालन करना आपको रोगग्रस्त होने से बचाएगा। रोगों में कमी होने से आप इस माह अधिक प्रसन्नचित नजर आर्येंगे। सहायक माह होने के कारण इस माह के दौरान आपको कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना होने की संभावना बहुत कम बन रही है।

दिसम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह में ग्रह, सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल है। अपच जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को माह अवधि में इन रोगों से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त पाचन अंगों के शीघ्र बिगड़ जाने से परेशान व्यक्तियों को भी इस समय में सुखद अनुभव होगा। फिर भी आप इन रोगों के प्रति नियमित रूप से आवश्यक सावधानी बनाए रखें। इसके अतिरिक्त खांसी, अस्थमा जैसी पुरानी शिकायतों के प्रति भी आपको सावधानी रखनी होगी। भोजन में विषाक्तता से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ सामान्य सावधानियों का पालन करें और अशुद्ध खाने खाने से बचें। सतर्कता बनाए रखने से यह माह आपके लिए काफी उत्साहजनक माह रहेगा।

स्वास्थ्य - 2029

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ सामान्य रहेगा। लग्न स्थान पर राहु की दृष्टि से अचानक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अतः स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए अच्छी नहीं होगी। 29 मार्च से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।

25 अगस्त से आपको खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। चिकनाईयुक्त व तली हुई वस्तुओं का कम से कम सेवन करना चाहिए। कुछ बेवजह की यात्राएं और काम का बोझ आपको थका सकता है।

जनवरी 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का सुरक्षा कवच आपको रोगों को दूर रखेगा। इस माह के अधिकतम समय में आप स्वयं को स्वस्थ और चुस्त रखेंगी। शीघ्र प्रभावित होने वाले रोग जैसे बुखार आदि के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता को अनदेखा करने से बचना होगा। ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को शुभ बनाए रखने के लिए शुभ बनी हुई हैं। अनहोनी होने का कोई संकेत नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी आप अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहें। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपना ध्यान रखने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।

फरवरी 2029 के लिए फलादेश

इस माह आप पर भाग्य का शुभ आशीर्वाद बना रहने के कारण आप उत्कृष्ट स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। यदि पेचिश, कब्ज और पुरानी बीमारियों के रोगी हैं तो इन रोगों में गड़बड़ी न होने से आपको विशेष राहत का अनुभव होगा। इस माह आपके पुराने रोग आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं देंगे। फिर भी रोगों के प्रति सामान्य एहतियात रखना आपको आरोग्यता प्रदान करेगा। बशर्ते की आप इस माह किसी भी मुसीबत को आमंत्रित न करें। सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। साथ ही आप अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से दूर रहें। इससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा।

मार्च 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों की स्थिति आपको स्वस्थता प्रदान कर रही हैं। कुछ विषयों को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य मामलों का इस माह समाधान होगा और आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको सावधानी के रूप में अत्यधिक परिश्रम से बचना होगा। स्वयं को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आपको सभी प्रकार की सामान्य गतिविधियों को समय देना चाहिए। खेल और रुचियों को समय देना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्य में कमी करने के लिए आप एक कार्य सारणी बनाकर इसका प्रयोग कर लाभ

प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व चली आ रही स्वास्थ्य अनियमितताओं का आपको ख्याल रखना होगा। अप्रिय लोगों और अप्रिय स्थानों से दूर रहना होगा। तथा स्वास्थ्य सुख में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको अच्छे वातावरण में रहना होगा।

अप्रैल 2029 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है इस माह की ग्रह स्थिति की शुभता आपके लिए आंशिक रूप से अनुकूल बनी हुई है। इसलिए इस माह आपको अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। इस माह में आपकी स्वास्थ्य अनुकूलता बहुत कम रहेगी। इसके अलावा आपको अप्रिय लोगों और स्थानों से दूर रहना होगा। आपके सामान्य परिवेश का आपकी स्वास्थ्य स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। अतः आप नकारात्मक स्वभाव के लोगों से दूरी बनाए रखें। अपनी भलाई को देखते हुए आप एहतियात बरत कर स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रद्द कर सकते हैं। अत्यधिक काम आसक्ति से भी आपको बचना होगा। यह आपके यौन अंगों की बीमारी दे सकता है। इस प्रकार के रोगों के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। उपचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप शीघ्र उपचार करें।

मई 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों एवं सितारों की शुभता आपको उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान कर आपके स्वास्थ्य विकारों का निराकरण कर रही हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने और उसे सुखद बनाए रखने में आपके पास-पास के वातावरण के महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए इस विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम बना हुआ है फिर भी इस माह कुछ अनहोनी के संकेत बन रहे हैं। एहतियात के रूप में अप्रिय लोगों, अप्रिय स्थानों से दूर रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में यह विशेष भूमिका निभाएगा। किसी भी प्रकार के मामूली बुखार या सूजन के ईलाज के विषय में आपको सतर्कता बनाए रखनी होगी। ऐसे रोगों का शीघ्र उपचार कराने से ये समय पर नियंत्रित रहेंगे।

जून 2029 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य को स्थिर रूप में उत्तम बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह, घटनाएं आपको सहयोग कर रही हैं। पाचन तंत्र, पुरानी बीमारियों की गड़बड़ी, पेट फूलना एवं वायु रोग के शांत रहने से आपको इन परेशानियों में काफी राहत का अनुभव होगा। अधिक से अधिक सामान्य सावधानियां रखने से आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह आपको राहत प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस माह आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण और सकारात्मक स्वभाव के लोगों के साथ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। साथ ही इस अवधि में अप्रिय परिवेश से दूर रखना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। आपके आस पास का सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना इस माह आपके हाथ रहेगा।

जुलाई 2029 के लिए फलादेश

यह माह आपके लिए सहायक माह होकर आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रहा है। कुछ मामूली समायोजनों को अपना कर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि आपको अत्यधिक मेहनत से बचना होगा। स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने दैनिक कार्यों का एक कार्यक्रम तैयार करना होगा। कार्यभार की अधिकता से आपके शारीरिक और मानसिक संसाधनों पर अनुचित दबाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। आपके आसपास का वातावरण भी आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक निर्धारित करेगा। किसी भी तरह के अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से बचना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। इस माह को उत्तम बनाए रखना आपके लिए सहज होगा। इसके अलावा यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम माह सिद्ध होगा।

अगस्त 2029 के लिए फलादेश

ग्रहों की शुभ स्थिति के आशिर्वाद के कारण यह माह आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसलिए इस माह आपको कम देखभाल और ध्यान की आवश्यकता रहेगी। फिर भी आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखना स्वास्थ्य सुख को बेहतर बनाएगा। यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए अतिउत्तम बना हुआ है। आपके सामान्य परिवेश की प्रकृति भी काफी हद तक आपके स्वास्थ्य शुभता का निर्धारण करेगी। नकारात्मक विचारधारा के लोगों से बचने के लिए आप इस प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखें। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अप्रिय लोगों से दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति है। खांसी, जुकाम जैसे रोग आपके स्वास्थ्य सुख में आंशिक कमी कर सकते हैं। इन रोगों से बचने के लिए एहतियात बनाए रखना एक अच्छा विचार होगा।

सितम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान बनने वाली ग्रह युति आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रही है। आप अचानक से किसी रोग के प्रभाव में आ सकते हैं इस प्रकार की बीमारियों के उपचार के प्रति आपको सावधान रहना होगा। उपचार के बिना यदि स्वास्थ्य शुभता बनी रहे तो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। उपचार शीघ्रता से कराना उति उत्तम फल प्रदान करेगा। इससे रोगों का शीघ्र समाधान होगा और रोग अपनी आरम्भिक अवस्था में ही शांत हो जायेंगे। इस माह विशेष चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य के पक्ष से भी यह समय शुभफलदायक बना हुआ है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आप किसी तरह से चिंतित नहीं रहेंगे।

अक्टूबर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारें आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ आशिर्वाद दे रहे हैं। इसलिए

इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। यहां तक कि गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुराने रोगों के निष्प्रभावी रहने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी। लेकिन फिर भी ध्यान न रखने पर अनुकूल स्थिति भी प्रतिकूल सिद्ध हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए विपरीत माहौल में रहने से आप रोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए संक्रमित स्थानों से दूर रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी भी तरह का संक्रमण होने पर तुरंत ईलाज कराना लाभदायक रहेगा।

नवम्बर 2029 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए शुभफलदायक रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर इस माह आपको अधिक चिंता नहीं करनी होगी। फिर भी इस माह आपको अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता का ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को निरंतर अच्छा रखने के लिए कुछ सावधानियां रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस माह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस माह अत्यधिक मेहनत करने से बचना चाहिए। इसके लिए आपको अपने कार्यों के पूर्व में ही एक रूपरेखा या समय सारणी तैयार करनी होगी। इस समय-सारणी का कठोरता से पालन करने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। किसी भी तरह के संक्रमण के प्रति आपको सावधान रहना होगा। इससे आप स्वास्थ्य दिक्कतों का निवारण कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की विफलता आपके स्वास्थ्य रोगों को आमंत्रित कर सकती हैं। इसके अलावा आपको छाती के रोगों के संक्रमण के प्रति भी सावधान रहना होगा।

दिसम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान कर रही हैं। इसलिए इस माह में आप स्वस्थ और कम से कम बीमार रहेंगे। फिर भी यदि आपके पाचन अंग काफी आसानी से अव्यवस्थित हो जाते हैं तो इस माह में आपको इन रोगों से राहत का अनुभव होगा। वायु रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखना हितकारी रहेगा। तथा रोग अनियमितताओं के प्रति सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए आपको उपचार से बचने के लिए सावधानियों का ध्यान रखना होगा। खांसी, जुकाम और छाती से संबंधित किसी भी संक्रमण से बचने के लिए आपको एहतियात से काम लेना होगा। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र दवा लेने से स्थिति गंभीर नहीं होगी।

दशा विश्लेषण

महादशा :- शनि
(15/11/2017 - 15/11/2036)

शनि की महादशा की अवधि 19 वर्ष है। आपकी कुण्डली में यह 15/11/2017 को आरम्भ और 15/11/2036 को समाप्त होगी।

आपकी जन्मकुण्डली में शनि प्रथम भाव में स्थित है। यह एक अशुभ ग्रह है जो जातक के दिमाग में भय उत्पन्न करता है। लक्ष्य प्राप्ति में यह बाधा और विलम्ब करता है। यह जातक की परीक्षा लेता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कठिन परिश्रम करने को प्रेरित कर उसके धैर्य की परीक्षा लेता है। किन्तु जातक को अन्ततः लक्ष्य की प्राप्ति होती है।

जन्मकुण्डली में प्रथम भाव में स्थित इस ग्रह की दृष्टि तृतीय, सप्तम तथा दशम भाव पर है और यह इन भावों के 'कारकत्व' पर प्रभाव डाल रहा है। प्रथम भाव, जिसमें यह स्थित है, शरीर की लम्बाई, बनावट, स्वास्थ्य, जीवन-शक्ति, व्यक्तित्व, जीवन संघर्ष, प्रतिष्ठा, सामान्य तन्दुरुस्ती, और जीवन-संरचना के प्रति विचार का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

महादशा स्वामी शनि लग्न में स्थित होने के फलस्वरूप इस दशा के दौरान कोई गम्भीर बीमारी या दुर्घटना नहीं होगी। इस दशा में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आप अपना कार्य नियमित रूप से करेंगे।

अर्थ-सम्पत्ति :

इस दशा के दौरान शनि के कारण आपको अर्थ-सम्पत्ति में वृद्धि करने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपको धन अर्जन के अनेक अवसर मिलेंगे और इस दशा में आपके संसाधनों में वृद्धि और 'सुधार' होगा। आप आराम और विलास की वस्तुओं पर व्यय करने में सक्षम होंगे।

व्यवसाय :

व्यावसायिक स्तर पर आप सुदृढ़ होंगे और अपनी बुद्धिमत्ता तथा शिक्षा के बल पर स्वयं धनोपार्जन करेंगे। आपमें स्वनियोजित होने की संभावना है। आप उपदेशक या नेता भी हो सकते हैं। आपको पैतृक सम्पत्ति भी मिल सकती है।

पारिवारिक जीवन :

प्रथम भाव से सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि के फलस्वरूप आपको आपके जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा और वह आपके परिवार को सुचारु रूप से चलाने में आपकी सहायता करेंगे। आपके बच्चे आज्ञाकारी तथा सहयोगी होंगे और आपके दैनिक जीवन में आपका सहयोग करेंगे। आपको उनसे संतोष मिलेगा।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

Astrologer Prashantgiri Goswami

Mahant Shree Vasukidada Mandir

www.astrologerguru.in

9824863217

prashantg88892@gmail.com

शिक्षा और साहित्यिक वृत्ति में वृद्धि की दृष्टि से यह दशा आपके अनुकूल होगी।



Astrologer Prashantgiri Goswami

Mahant Shree Vasukidada Mandir

www.astrologerguru.in

9824863217

prashantg88892@gmail.com

अंतर्दशा :- शनि - शुक्र
(06/09/2024 - 06/11/2027)

शनि महादशा की अवधि 19 वर्ष होती है। आपके लिए यह 15/11/2017 को प्रारंभ होकर 15/11/2036 को समाप्त होगी। इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 2 मास की होगी जो आपके लिए 06/09/2024 को प्रारंभ होकर 06/11/2027 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्री में एकादश भाव में स्थित है। एकादश भाव मित्रगण, समाज, महत्वाकांक्षा, इच्छाएं और उनकी पूर्ति। उद्यम में सफलता, धनलाभ, बड़े भाई, भाग्योदय और टखनों का परिचायक है। शुक्र शुभ ग्रह है। एकादश भाव में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपकी खूब यात्राएं होंगी। इस कारण बहुत से व्यक्तियों से मित्रता होगी। मित्रों में महिलाएं भी होंगी। लोकप्रिय बनेंगे, खूब धन कमाएंगे। सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। यह अंतर्दशा बहुत शुभ रहेगी।

शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र के तांत्रिक मंत्र के 36000 जाप करें।

अंतर्दशा :- शनि - सूर्य
(06/11/2027 - 18/10/2028)

शनि महादशा की अवधि 19 वर्ष होती है। आपके लिए यह 15/11/2017 को प्रारंभ होकर 15/11/2036 को समाप्त होगी।

शनि महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 11 मास 12 दिन की होती है। आपके लिए यह 06/11/2027 को प्रारंभ होकर 18/10/2028 को समाप्त होगी।

सूर्य आपकी जन्मपत्री में नवम भाव में स्थित है। नवम भाव श्रद्धा, भाग्य, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार, अंतर्ज्ञान, भविष्यज्ञान, उपासनास्थल, पिता, धर्मगुरु, लंबी यात्राएं, हवाई यात्रा, उच्च शिक्षा और घुटनों का प्रतिनिधि है। सूर्य शक्तिशाली ग्रह है। नवम भाव में स्थित होकर सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपको पुत्रों से सुख में कमी आ सकती है। स्वयं के प्रयास से अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और अध्यात्म में रुचि होगी,

पिता और गुरु की सेवा करेंगे। पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप महत्वाकांक्षी और उद्यमी होंगे, मगर कार्यों में बाधाएं आएंगी।

अरिष्ट से बचाव के लिए सूर्य के वैदिक मंत्र के 7000 जाप करें। सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें।

**अंतर्दशा :- शनि - चन्द्र
(18/10/2028 - 20/05/2030)**

शनि महादशा में चंद्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 7 मास की होगी। आपके लिए यह 15/11/2017 को प्रारंभ होकर 15/11/2036 को समाप्त होगी।

चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में छठे भाव में स्थित है। छठा भाव बीमारी, सुश्रूषा, मातहत या सेवक, कर्ज, शत्रु, कंजूसी और अतिकष्ट का द्योतक है। चंद्र शक्तिशाली ग्रह है। छठे भाव में स्थित होकर चंद्र आपकी कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप पर कर्ज चढ़ सकता है। नौकरी में अधिकारी अप्रसन्न हो सकते हैं। सहकर्मियों और संबंधियों से संबंध भी मधुर नहीं रहेंगे। मानसिक क्षमता और साहस में कमी आ सकती है। जिगर की व्याधि संभव है। खानपीन में देखभाल आवश्यक है।

अरिष्ट से बचाव के लिए 5 (रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में दायें हाथ की कनिष्ठिका में, सोमवार को प्राप्त:काल कच्चे दूध से धोकर चंद्र मंत्र के 11 जाप के उपरांत धारण करें।